

एक साल में चला दिए 40 लाख के नकली नोट

Publish Date: | Wed, 18 Mar 2020 04:02 AM (IST)

नईदुनिया

नीमच (नईदुनिया प्रतिनिधि;घिळर-झिझ।)। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के दो आ अंतरप्रांतीय गिरोह के दो सदस्य नीमच पुलिस की गिरफ्त में

-पुलिस ने जब्त किए प्रिंटर और अन्य दस्तावेज

नीमच (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों लगभग डेढ़ लाख रुपये के नकली नोटों से भरा बैग ले जा रहे एक आरोपित से कड़ी पूछताछ के बाद नीमच पुलिस को यह सफलता मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से नकली नोट छापने में प्रयोग की जाने वाली प्रिंटर मशीन, पेपर दस्ता सहित कई सामग्री जब्त की। यह आरोपित राजस्थान के चंदेरिया क्षेत्र के निवासी हैं।

मंगलवार को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके यूसुफ पठान (30) निवासी बोदियाना कला से कड़ी पूछताछ में इन दो आरोपितों के नाम सामने आए थे।

100 से लगाकर दो हजार तक के छापे नोट

एसपी राय ने बताया कि इस मामले ने रणनीति तैयार कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा को टीम लीडर बनाया गया। जीरन पुलिस थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह सिसोदिया व उनकी टीम के साथ यह कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी मिश्रा ने बताया कि चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) से कमलेश बुनकर (26) और उसके साथी दिनेश लोहार (22) को गिरफ्तार किया। लोहार ऑनलाइन शॉप का कामकाज करता है। आरोपितों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि उन्होंने लगभग 1 साल में 40 लाख से अधिक के नोट बाजार में चला दिए। उन्होंने 100 रुपये से लगाकर दो हजार तक के नकली नोट छाप लिए। एसपी राय ने बताया कि आरोपित इतने चालाक हैं कि उन्होंने यह नकली नोट लाखों रुपये की असली नोटों की गड्डी में फंसाकर चलाने का दुस्साहस किया।

ढाबे पर पकड़ाया था पहला आरोपित

इस पूरे मामले में गत 14 मार्च को महु-नसीराबाद हाई वे पर स्थित एक ढाबे से जीरन पुलिस ने संदिग्ध रूप से बैठे यूसुफ पठान को हिरासत में लिया। उसकी तलाशी में एक बैग के अंदर रखे 1 लाख 57 हजार 200 रुपये जब्त किए। छानबीन में पाया कि यह सभी नोट नकली हैं। इसके बाद लगातार कार्रवाई जारी रही। 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पठान ने अपने साथियों का पता दिया। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में और भी आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इस कार्रवाई में जीरन पुलिस के ही सहायक उप निरीक्षक कैलाश राठौर, आरक्षक पाल सिंह, महेश जाट, प्रणव तिवारी, पंकज पाटीदार, लोकेंद्र आदि टीम में शामिल थे।

नीमच और जीरन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नकली नोट कारोबार से जुड़े तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में शामिल टीम को 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपितों ने यह नकली नोट नीमच के अतिरिक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सहित अन्य इलाकों में भी उपयोग में लिए हैं।

- मनोज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक नीमच

16एनएमएच-22, प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के साथ दोनों आरोपित।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/neemuch-neemuch-news-5423256>